



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024

पौष 9, 1946 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 2808/वि०स०/संसदीय/112(सं)-2024

लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीडा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021 की धारा 12 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :- “(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व।”
धारा 49 का संशोधन	3-मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- “49-धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष के लिए तथा संतोषजनक सेवा पाये जाने पर जिसे दो वर्ष तक विस्तारित भी किया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।”
निरसन और व्यावृत्ति	4-(1) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024 एतद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में एक सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक, मामलों का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021) अधिनियमित किया गया है।

यह आवश्यकता अनुभव किया गया कि कोई प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या कोई प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित समिति का एक सदस्य होगा और पूर्वोक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम कुलपति की नियुक्ति के लिये समय-सीमा बढ़ाये जाने का उपबंध भी करेगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) और धारा 49 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

गिरीश चन्द्र यादव
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
खेल।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024) के प्रतिस्थानी विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्गस्त हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है :-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(3)	यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

गिरीश चन्द्र यादव
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
खेल।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

धारा 12 (3) (ग)	एक सदस्य (जो विश्वविद्यालय, किसी संस्था, किसी संघटक महाविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या किसी हाल या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ से बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जायेगा : परन्तु यह कि जहाँ बोर्ड, किसी व्यक्ति को खण्ड (ग) के अनुसार निर्वाचित करने में विफल हो, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (क) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड के प्रतिनिधि के बदले में किसी एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेंगे/करेगी।
धारा 49	धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अनधिक एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 542/XC-S-1-24-46S-2024
Dated Lucknow, December 30, 2024

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Kreedha Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 19, 2024.

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY (AMENDMENT)
BILL, 2024

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Sports Universities Act, 2021.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Sports Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extent to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in this behalf, appoint.

Amendment of
section 12 of UP
Act no. 8 of
2021

2. In the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (c) of sub-section (3) of section 12, the following clause shall be *substituted*, namely :-

“(c) One member, shall be renowned sports administrator or a renowned sports personality to be nominated by the State Government.”

Amendment of
section 49

3. *For* section 49 of the Principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :-

“49. Notwithstanding anything contained in section 12, the first Vice-Chancellor shall be appointed, as soon as may be, after the coming into force of this Act, by the State Government for a term not exceeding three years and may be extended by two years on satisfactory service on such terms and conditions as it may deem fit.”

Repeal and
saving

4. (1) The Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 21 of
2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021 (U.P. Act no.8 of 2021) has been enacted to provide for the establishment of an affiliating and teaching University of Sports in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

A need has been felt that a renowned sports administrator or a renowned sports personality shall also be a member of the committee constituted for the appointment of Vice Chancellor and to make a provision for extending the time limit for appointment of first Vice Chancellor after the commencement of the aforesaid Act. In view of the above it was decided to amend clause (c) of sub-section (3) of section 12 and section 49 of the aforesaid Act .

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Sports University (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance No.21 of 2024) was promulgated by the Governor on December 06, 2024.

This bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

GIRISH CHANDRA YADAV
*Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Khel.*

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.